

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन में कॅनेडा डे का जशन मनाएं!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 जून, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को अपने व्यक्तिगत कॅनेडा डे (Canada Day) के जशन के वापस आने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह चिंग्कूज़ी पार्क (Chinguacousy Park) में 1 जुलाई को, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक होगा। ब्रैम्पटन का कॅनेडा डे का जशन शहर का सबसे बड़ा एक दिन का कार्यक्रम है, जिसमें लाइव मनोरंजन, कला, संस्कृति, फूड, पटाखों आदि से भरपूर अवसरों का जशन मनाया जाता है।

परिवार अनुकूलित मनोरंजन

मज़ेदार गतिविधियों से भरपूर दिन के लिए पूरे परिवार को लेकर आएं:

- इन्फ्लेटेबल ज़ोन में मज़े से छलांगें लगाना;
- चिंग्कूज़ी पार्क की सभी सुविधाओं का आनंद लें, जिनमें शामिल हैं, स्पलैश पैड और प्लेग्राउंड, स्केटबोर्ड पार्क, मिनी-गोल्फ, हिंडोला और ट्रेकलेस ट्रेन, पैडल बोट रेंटल्स, मिनी मू फार्म आदि;
- फूड और रिटेल विक्रेता ज़ोन्स में लोकल कारोबारों की हिमायत करें;
- काउंसिल के मेम्बर्स की तरफ से मुफ्त कपकेक;
- मेरिडियन क्रेडिट यूनियन (Meridian Credit Union) के द्वारा पेश किए गए वाटर-रिफिल स्टेशन;
- लाइव पटाखे, जो टिम होर्टन्स (Tim Hortons) के द्वारा पेश किए जाएंगे; और
- तथा और भी बहुत कुछ!

लाइव मनोरंजन

चिंग्कूज़ी स्विंग ऑर्केस्ट्रा (Chinguacousy Swing Orchestra), ब्रैम्पटन फोक क्लब (Brampton Folk Club) और इलेक्ट्रिक रिवाइवल (Eclectic Revival), पैडल बोट पविलियन के पास म्युजिक के साथ पूरी दोपहर आगंतुकों (विजीटर्स) का मनोरंजन करेंगे। उसके बाद, शाम को 6 बजे मेन स्टेज से लाइव, म्युजिकल परफॉर्मेंसेज के लिए कोन्सर्ट ज़ोन में जाएं। इसकी मेजबानी, मीडिया शख्सियत, उद्यमी और सांस्कृतिक योगदान देने वाले जेस जोन्स (Jesse Jones) के द्वारा की जा रही है। रोबर्टा बटैगलिया (Roberta Battaglia), राष्ट्रीय गीत गाकर परफॉर्मेंसेज की शुरुआत करेंगे और फिर, ब्रैम्पटन के रैपर, स्पिट्टी (Spitty) के द्वारा परफॉर्मेंसेज, उसके बाद जूनो-नामांकित स्नॉटी नोज रेज़ किडज (Snotty Nose Rez Kids) और मुख्य प्रदर्शक तथा हिप-हॉप की प्रसिद्ध हस्ती, कार्डिनल ऑफिशल (Kardinal Offishall) की परफॉर्मेंस का आनंद लें। यह ऐसी रात होगी, जिसे आप भुला नहीं पाएंगे। कॅनेडा की वर्षगांठ मनाने के लिए रात को 10 बजे शानदार पटाखों के शो के साथ रात का अंत करें, यह टिम होर्टन्स के द्वारा पेश किया जा रहा है।

स्पिटी ब्रैम्पटन के इंडियन-कैनेडियन रैपर हैं, जो पूरी दुनिया में समर्पित और बढ़ रहे प्रशंसकों के साथ माहौल बना रहे हैं। 2021 में, स्पिटी ने अपनी पहली एलबम, फुल सर्कल (Full Circle) रिलीज की थी, जिसे रोलिंग स्टोन इंडिया (Rolling Stone India) और मच म्युजिक (Much Music) सहित कई पब्लिकेशन्स से प्रशंसा मिल रही है, जो उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तक पहुंच को दर्शाता है। एलबम के कारण, स्पिटी को उनके अपने टोरोंटो कोन्सर्ट में मुख्य जगह मिली थी और उन्होंने 2022 के शुरु में 6-सप्ताह के अमेरिका (USA) के टूर के लिए सड़क पर अपना म्युजिक लाने से पहले, दक्षिणी ओनटारियो में परफॉर्म किया था। तब से उन्होंने इस गति को जारी रखा और डंडास सक्वेयर (Dundas Square) में देसीफेस्ट (DesiFest), कैनेडियन म्युजिक वीक (Canadian Music Week), एन.एक्स.एन.ई. (NXNE) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन में बी.वी.एक्स. फेस्ट (BVX Fest) में परफॉर्म किया।

अब, स्पिटी का उद्देश्य, नई हिट म्युजिक रिलीज करना और अधिक जोश वाले लाइव शो के अपने सफर को जारी रखना है।

स्नॉटी नोज रेज़ किडज़, फर्स्ट नेशन्स (First Nations) की हिप-हॉप जोड़ी है, जो हैसला (Haisla) रैपर्स, डैरेन "यंग डी." मेटज़ (Darren "Young D" Metz) और क्विनटन "यंग ट्राइबेज़" नाइस (Quinton "Yung Trybez" Nyce) से बनी है। वे मूल रूप में, किटामाट विलेज, ब्रिटिश कोलंबिया (Kitamaat Village, British Columbia) से हैं, और इस समय वैनकूवर (Vancouver) में रहते हैं। उनकी 2017 की एलबम, द एवरेज सैवेज (The Average Savage) को 2018 के पोलारिस म्युजिक प्राइज़ (2018 Polaris Music Prize) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और वे, 2019 और 2022 में, जूनो अवॉर्ड्स में जूनो अवार्ड इंडीजीन्स म्युजिक एलबम ऑफ द यीअर (Juno Award Indigenous Music Album of the Year) के लिए नामांकित भी हुए थे।

कार्डिनल ऑफिशल एक रैपर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, डी.जे. (DJ) और रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव हैं। इन्हें अकसर कैनेडा का "हिप हॉप एम्बेस्डर" माना जाता है, उन्हें देश के सबसे बढ़िया हिप-हॉप कलाकारों के तौर पर मान्यता दी जाती है और उन्हें हिप हॉप के अपने खास रेगे और डांसहॉल-प्रभावित स्टाइल के लिए जाना जाता है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के कैनेडा डे के कार्यक्रम को उदारतापूर्वक, मेरिडियन क्रेडिट यूनियन, टिम होर्टन्स, एलेक्ट्रा (Alectra), बेल (Bell), कोक कैनेडा बॉटलिंग (Coke Canada Bottling), क्वालिटी स्वीट्स (Kwality Sweets), नो फ्रिल्स (No Frills) और सिंपली फाइनेंशियल (Simplii Financial) के द्वारा प्रायोजित (स्पांसर) किया जा रहा है।

चिंगकूज़ी पार्क, 9050 ब्रैमली रोड (9050 Bramalea Road) पर स्थित है। ऑन-साइट पार्किंग सीमित है, प्रति वाहन 20 डॉलर की फीस लगेगी और अस्थायी तौर पर सड़कें बंद रहेंगी। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि पैदल, अपनी बाइकों पर आएँ या इस दिन के लिए ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) के द्वारा पेश की जा रही मुफ्त शटल सेवा का लाभ उठाएं।

निम्नलिखित स्थानों पर मुफ्त शटल लें, जो दोपहर को शुरू होकर प्रत्येक 30 मिनटों के बाद आती हैं:

- माउंट प्लैज़ेंट गो स्टेशन (Mount Pleasant GO Station)
- ट्रिनिटी कॉमन मॉल (Trinity Common Mall)
- शेरिडन कॉलेज (Sheridan College)

- गोर मेडोज कम्युनिटी सेंटर एंड लाइब्रेरी (Gore Meadows Community Centre and Library)

निम्नलिखित वैकल्पिक पार्किंग स्थान, चिंगकूज़ी पार्क के नजदीक उपलब्ध हैं:

- ब्रैमली सिटी सेंटर (Bramalea City Centre)
- ब्रैम्पटन सिविक सेंटर (Brampton Civic Centre)
- ग्रीनब्रियर रेक्रिएशन सेंटर (Greenbriar Recreation Centre)
- लेस्टर बी. पियर्सन कैथोलिक स्कूल (Lester B. Pearson Catholic School)
- सेंट जॉन ब्रेबेफ कैथोलिक स्कूल (St. Jean Brebeuf Catholic School)
- टेरी मिलर रेक्रिएशन सेंटर (Terry Miller Recreation Centre)

कैनेडा डे कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, brampton.ca/canadaday पर जाएं।

हवाले

“हम, इस वर्ष निवासियों को दुबारा, कैनेडा डे का जशन मनाने के लिए हमारे सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम में, निवासियों की व्यक्तिगत मेजबानी करने के लिए बहुत उत्साहित हैं! शानदार लाइव मनोरंजन, कला, संस्कृति, फूड और पटाखों के लिए 1 जुलाई को, चिंगकूज़ी पार्क में हमसे जुड़ें। परिवार में हर किसी के आनंद लेने के लिए कुछ न कुछ है!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“निवासियों और आगंतुकों को चिंगकूज़ी पार्क में कैनेडा डे के लिए हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है! कैनेडियन हिप-हॉप प्रसिद्ध हस्ती कार्डिनल ऑफिशल और जूनो-नामांकित स्नॉटी नोज रेज़ किडज के द्वारा परफॉर्मेंसेज के साथ कैनेडा की वर्षगांठ मनाएं, पटाखों के डिस्प्ले का आनंद लें और परिवार-अनुकूलित गतिविधियों में हिस्सा लें। ऑन-साइट पार्किंग सीमित है, इसलिए पैदल, बाइक पर आने या हमारी मुफ्त ब्रैम्पटन ट्रांज़िट शटल सेवा का लाभ उठाने के बारे में सोचें!”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम इस वर्ष हमारे व्यक्तिगत कैनेडा डे के जशन में एक बार फिर निवासियों का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। कई प्रकार की शानदार गतिविधियों और परफॉर्मेंसेज के लिए, 1 जुलाई को चिंगकूज़ी पार्क में सिटी से जुड़ें।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन



Media Release

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca